

डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव “गिरिराज सम्मान” से विभूषित



प्रशासन के साथ-साथ हिंदी साहित्य और लेखन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर के निदेशक डाक सेवाएँ श्री कृष्ण कुमार यादव को गगन स्वर प्रकाशन द्वारा ” गिरिराज सम्मान -2016” से सम्मानित किया गया। श्री यादव को यह सम्मान उनके रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी, गाजियाबाद में प्रवास के दौरान गगन स्वर के सम्पादक ए. के मिश्र ने शाल ओढ़ाकर, नारियल फल देकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर अभिनन्दन के साथ किया। गौरतलब है कि श्री यादव को यह सम्मान गत माह हिंदी भवन, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय साहित्यकार समारोह में पद्मभूषण डॉ. गोपाल दास नीरज द्वारा पद्मश्री डॉ. अशोक चक्रधर और वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कुँवर बेचैन की सादर उपस्थिति में प्रदान किया जाना था। पर अपनी व्यस्तताओं के चलते कार्यक्रम शामिल न हो पाने पर डाक निदेशक श्री कृष्ण कुमार यादव को यह सम्मान गाजियाबाद में उनके प्रवास के दौरान दिया गया।

कार्यक्रम के संयोजक ए. के मिश्र ने कहा कि, श्री कृष्ण कुमार यादव भारतीय डाक सेवा के अत्यन्त ऊर्जस्वी और गतिमान युवा अधिकारी हैं। उच्च कोटि के चिंतक, लेखक एवं ब्लॉगर होने के साथ-साथ आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की साम्यता अद्भुत एवं विलक्षण है। आपने विभिन्न विषयों पर कुल 7 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें ‘अभिलाषा’ (काव्य-संग्रह) ‘अभिव्यक्तियों के बहाने’ व ‘अनुभूतियाँ और विमर्श’ (निबंध-संग्रह), India Post : 150 glorious years , ‘क्रांति-यज्ञ : 1857-1947 की गाथा’, ‘जंगल में क्रिकेट’ (बाल-गीत संग्रह) एवं ‘16 आने 16 लोग’(निबंध-संग्रह) शामिल हैं। श्री यादव के व्यक्तित्व-कृतित्व पर भी एक पुस्तक “बढ़ते चरण शिखर की ओर” (सं. डॉ. दुर्गाचरण मिश्र) प्रकाशित हो चुकी है।

देश-विदेश से प्रकाशित तमाम पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर भी प्रमुखता से प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण कुमार यादव को इससे पूर्व उ.प्र. के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा ”अवध सम्मान”, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी द्वारा ”साहित्य सम्मान”, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर दत्त द्वारा ”विज्ञान परिषद शताब्दी सम्मान”, साहित्य मंडल, श्रीनाथद्वारा, राजस्थान द्वारा ”हिंदी भाषा भूषण”, परिकल्पना समूह द्वारा ”दशक के श्रेष्ठ हिन्दी ब्लॉगर दम्पति” सम्मान, विक्रमशिला हिन्दी विद्यापीठ, भागलपुर, बिहार द्वारा डॉक्टरेट (विद्यावाचस्पति) की मानद उपाधि, भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा “डॉ. अम्बेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान”, वैदिक क्रांति परिषद, देहरादून द्वारा “श्रीमती सरस्वती सिंहजी सम्मान”, भारतीय बाल कल्याण संस्थान द्वारा “प्यारे मोहन स्मृति

सम्मान“, ग्वालियर साहित्य एवं कला परिषद द्वारा ”महाप्राण सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला‘ सम्मान”, राष्ट्रीय राजभाषा पीठ इलाहाबाद द्वारा “भारती रत्न“, अखिल भारतीय साहित्यकार अभिनन्दन समिति मथुरा द्वारा “महाकवि शेक्सपियर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान“, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा ”पं० बाल कृष्ण पाण्डेय पत्रकारिता सम्मान”, सहित विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक-साहित्यिक संस्थाओं द्वारा विशिष्ट कृतित्व, रचनाधर्मिता और प्रशासन के साथ-साथ सतत् साहित्य सृजनशीलता हेतु तमाम सम्मान और मानद उपाधियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।

– ए. के. मिश्र

प्रधान सम्पादक – गगन स्वर

30, रामा पार्क, निकट थाना साहिबाबाद

गाजियाबाद -201005